



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

आ.अ. 75(अ).—यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत जारी अपनी अधिसूचना सं. 464/2014/(3क), दिनांक 15 मार्च, 2014 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 12-गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में 10 अप्रैल, 2014 को आयोजित किए जाने वाले मतदान के लिए "मतदान का समय" पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक नियत किया है।

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र और गडचिरोली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्टों पर विचार करते हुए और अन्य सभी तथ्यपरक परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि कानून एवं व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों के गंभीर मुद्दों के कारण, महाराष्ट्र राज्य के 12-गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 4 (चार) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् 66- आमगांव (अ.ज.जा.), 67- आरमोरी (अ.ज.जा.), 68-गडचिरोली (अ.ज.जा.) और 69-अहेरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में मतदान पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक आयोजित करना वांछनीय है,

अब, इसलिए, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, ऊपर संदर्भित अधिसूचना सं. 464/2014/(3क), दिनांक 15 मार्च, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे दी गई तालिका में स्तम्भ (3) की मौजूदा प्रविष्टि के लिए महाराष्ट्र राज्य के 12-गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
12-गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	10 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक
66- आमगांव (अ.ज.जा.)		
67- आरमोरी (अ.ज.जा.)		
68-गडचिरोली (अ.ज.जा.)		
69-अहेरी (अ.ज.जा.)		

[सं. 464/एम टी-लो.स./2014]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2014

O.N. 75(E).—Whereas, the Election Commission of India by its Notification No. 464/2014/(3A), dated 15th March, 2014 issued under Section 30 read with Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) has fixed “Hours of Poll” from 7.00 AM to 4.00 PM for the polls to be taken on 10th April, 2014 in respect of 12-Gadchiroli-Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra.

Whereas, after considering the reports of Chief Electoral Officer, Maharashtra and District Election Officer of Gadchiroli District and taking into account all other material circumstances, the Election Commission of India is satisfied it is desirable to conduct the poll from 7.00 AM to 3.00 PM in respect of 4 (Four) Assembly Constituencies *viz.* 66-Amgaon (ST), 67- Armori (ST), 68- Gadchiroli (ST) and 69- Aheri (ST) Assembly Constituencies of 12-Gadchiroli-Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra due to serious issues of Law & Order related situations,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 464/2014/(3A), dated 15th March, 2014 referred to above, namely:—

In the Table below the Schedule to the said Notification, for the existing entry in column (3), against 12-Gadchiroli-Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, the following entries shall be substituted, namely:—

No. & Name of Parliamentary Constituency	Date of poll	Hours of poll
1.	2.	3.
12- Gadchiroli-Chimur (ST)	10th April, 2014 (Thursday)	07.00 AM to 03.00 PM
66-Amgaon (ST)		
67-Armori (ST)		
68-Gadchiroli (ST)		
69-Aheri (ST)		

[No. 464/MT-HP/2014]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Principal Secy.